



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 290 राँची, गुरुवार,

15 वैशाख, 1938 (श०)

5 मई, 2016 (ई०)

### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----

अधिसूचना

2 मई, 2016

**संख्या-2373--**झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 2000 की धारा-4 (1)(क) एवं 16 (2)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जानकी प्रसाद यादव, स०वि०स०, पिता-स्व० निर्मल महतो, आवास सं०-01, ग्राम-चटकारी, पो०-सलेडीह, जिला-हजारीबाग को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव ।

-----

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 290—50 ।